

**प्रेस नोट दिनांक 28.08.2021**  
**थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।**

**थाना भोजीपुरा #bareillypolice द्वारा मु0अ0सं0 474/21 से सम्बन्धित अभियुक्त रमेशचन्द्र को किया गिरफ्तार, अभियुक्त की निशादेही से घटना में प्रयुक्त एक अदद लिपटिस का डंडा बरामद।**

दिनांक 24.08.2021 की शाम करीब 08.00 बजे ग्राम जोगीठेर में हुये पारिवारिक झगडे में तोताराम पुत्र ढाकनलाल नि0 जोगीठेर थाना भोजीपुरा बरेली व अन्य परिवारीजन के चोट आई। उपचार के दौरान तोताराम उपरोक्त की मृत्यु होने पर मृतक के पुत्र कान्ताप्रसाद द्वारा थाना हाजा पर मु0अ0सं0 474/21 धारा 304,324,323,504 भादवि बनाम 1.रमेश आदि 4 नफर के विरुद्ध पंजीकृत कराया। जिसमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बरेली व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नबावगंज जनपद बरेली के पर्यवेक्षण में गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी थी। जिसमें थाना भोजीपुरा जनपद बरेली के वरि0उ0नि0 आलोक कुमार मिश्रा द्वारा मय फोर्स के मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रमेश चन्द्र कश्यप पुत्र बांधूराम कश्यप नि0 ग्राम जोगीठेर थाना भोजीपुरा बरेली को मुखबिर की सूचना पर मस्कन से दिनांक 28.08.2021 को गिरफ्तार किया गया जिसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा लकडी (लिपटिस) बरामद किया गया एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-** रमेश चन्द्र कश्यप पुत्र बांधूराम कश्यप नि0 जोगीठेर थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

**बरामदगी:-** घटना में प्रयुक्त एक अदद लिपटिस का डंडा

**गिरफ्तार का स्थान व दिनांक व समय:-** ग्राम जोगीठेर, दिनांक 28.08.21 समय 10.05 बजे

**पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

1.मु0अ0सं0 474/21 धारा, 304,324,324,504 भादवि

**वांछित अभियुक्तगण का नाम पता:-**

- 1.श्रीपाल पुत्र बांधूराम नि0 जोगीठेर थाना भोजीपुरा बरेली
- 2.जोगराज पुत्र बांधूराम नि0 जोगीठेर थाना भोजीपुरा बरेली

**गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण:-**

- 1.वरि0उ0नि0 आलोक कुमार मिश्रा
- 2.का0 1625 रवि गौतम
- 3.का0 1739 सौरभ

**प्रभारी निरीक्षक भोजीपुरा  
जनपद बरेली।**